



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1—मई 7, 2004 (वैशाख 11, 1926)  
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1—MAY 7, 2004 (VAISAKHA 11, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई  
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued  
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the  
Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 अप्रैल 2004

सं० पीएफ 3014(3)/ए एन-1/जी एन-5146/2004—  
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति से वापस  
आने पर श्री खखाई जोऊ ने इस सचिवालय में 8000-275-  
13500 रुपए के वेतनमान में कार्यकारी अधिकारी/विधायी  
अधिकारी/समिति अधिकारी/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में 26  
मार्च, 2004 के पूर्वानुज्ञ से अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर  
लिया है।

पी० श्रीधरन, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अप्रैल, 2004

सं० पीएफ 1878(3)/जी एन-5147/ए एन-1/2004—  
नागालैण्ड विधान सभा सचिवालय, कोहिमा में प्रतिनियुक्ति से  
वापस आने पर श्री आर० कोदहारमन ने इस सचिवालय में

15100-400-18300 रुपए के वेतनमान में निदेशक के रूप  
में 2 अप्रैल 2004 के अपराह्न से अपना कार्यभार पुनः ग्रहण  
कर लिया है।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 अप्रैल, 2004

सं० पी एफ 1819( ) 3/जी एन-5148/ए एन-1/2004—  
अध्यक्ष महोदय, श्री ए० लूईस माटिन, निदेशक, लोक सभा  
सचिवालय को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की  
बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 की सं० 40) के अंत-  
र्गत दिनांक 26 नवम्बर, 1988 को भारत के राजपत्र, भाग-दो,  
खण्ड-3, उप-खण्ड (दो) में प्रकाशित और गृहरी विकास मंत्रा-  
लय के दिनांक 8 नवम्बर, 1988 के एस० ओ० 3507 द्वारा  
यथाअधिसूचित संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए 2 फरवरी, 2004 से

अगले आदेशों तक संघदा अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

#### मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० ए-19013/1/2004-प्रशा० I— राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय में उप सचिव (स्वस्थाने) श्री के० एल० शर्मा को 24 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर उपसचिव नियुक्त करते हैं।

ए० मोहनन, अवर सचिव

#### प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, -110011 दिनांक 29 मार्च 2004

सं० पी०आर०एन०एस०ए०/02(02)/2001—श्री नीरज सिन्हा को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में दिनांक 22-3-2004 (पूर्वाह्न) से रु० 12000-375-16000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' के पद पर स्थायी आमेलन के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० राय, अवर सचिव

सं० पी०आर०एन०एस०ए०/02(02)/2001—डा० आर० पी० गुप्ता को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में दिनांक 22-03-2004 (पूर्वाह्न) से रु० 12-000-375-16,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक 'ई' के पद पर स्थायी आमेलन के आधार पर राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० राय, अवर सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 06 अप्रैल 2004

सं० ए-43014/03/2000-प्रशा०-II—आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 27-2-2004 के आदेश सं० 11016/1999-आईईएस के अनुसरण में, श्री आर० पी० मिश्रा ने योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में दिनांक 29-3-2004 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

#### सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 अप्रैल 2004

सं० 12018/1/2003-सा०सा०से०—भा०सा०से० के एच० ए०जी० स्तर के अधिकारी तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली में अपर महानिदेशक के पद पर तैनात

श्री एम० नीलकण्ठन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-3-2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए।

भारती दत्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अप्रैल 2004

सं० ए-19018/1/2004-प्रशा०-IV—इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं० 12015/2/2004-आई एस एस (1) दिनांक 01-04-2004 के अनुसरण में श्री राम अनुज द्विवेदी, भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) के एक अधिकारी ने समन्वय एवं प्रकाशन विभाग, रा०प्र०सर्व० सं० में दिनांक 5-4-2004 के अपराह्न से संयुक्त निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

जी० एस० बसरा, अवर सचिव

#### विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2004

#### शुद्धि पत्र

सं० ए-31013/1/2003-प्रशा०-III (वि०का०)—इस विभाग के दिनांक 15 मार्च, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, क्रम सं० 49 पर उल्लिखित श्री जोगिन्द्र सिंह, न्यायिक सक्ष्य की आयकर असीलीय अधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्ति की वास्तविक अवधि को दिनांक "24.12.02" के स्थान पर "24.07.02" पढ़ा जाए।

यशवंत सिंह, अवर सचिव

#### (न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० के० 13016/1/2004यू० एस० II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री प्रदीप नन्दाजोग को अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

#### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2004

सं० आई-14011/11/2003-आई० पी० एस०-I—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवर्षिता पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (अवर्ष) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम

(1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

## चयन सूची-2001

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	विजय श्रीकुमार	23-3-1957
2.	ए० टी० जोस	23-1-1949
3.	वर्गीस जोर्ज	30-9-1947
4.	एम० वी० सोमसुन्दरम	7-4-1947

## चयन सूची-2002

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	टी० चंद्रन	02-05-1949
2.	बी० वी० मोहनन	15-09-1948
3.	के० विजयशंकर	27-02-1950
4.	टी० वी० कमलकशन	01-06-1950
5.	एम० एन० जयप्रकाश	01-01-1950
6.	एम० बहाब	17-05-1948
7.	पी० टी० नन्दकुमार	08-07-1949
8.	टी० पी० राजगोपालन	16-02-1948
9.	पी० आई० वर्गीस	06-02-1948
10.	के० बालकृष्ण कुरुप	15-06-1948

## चयन सूची-2003

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	एम० सुभाषन	30-10-1951
2.	पी० एम० अबूबेकर	10-06-1951

उपरोक्त नियुक्तियों में सर्व/बी ए० टी० जोस, वर्गीस जोर्ज, एम० वी० सोमसुन्दरम, वी० वी० मोहनन, एम० बहाब, टी० पी० राजगोपालन, पी० आई० वर्गीस, के० बालकृष्ण कुरुप की नियुक्तियाँ इस सम्बन्ध में विभिन्न अदालतों में राज्य सरकार द्वारा दायर स्पष्टकारी आवेदनों/रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन, एवं भारत सरकार के उच्च न्यायालयों में अपील दायर करने के अधिकार के फलस्वरूप अन्तिम होंगी।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० : आई-14011/11/2003-आई० पी० एस०-1—  
भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबंधों का प्रयोग करते हुए लोक सेवा आयोग ने दिनांक 09-02-2004 को चयन समिति की दिनांक 24-12-03 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2001, 2002 एवं 2003 की उन वार्षिक चयन सूचियों

को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के केरल संवर्ग ने वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 में चार, दस एवं चार मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु केरल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है।

2. वर्ष 2003 में क्रम सं० 3 एवं 4 पर शामिल अधिकारियों को माननीय केरल उच्च न्यायालय के अर्नाकुलम खंडपीठ में दायर रिट सं० (सी) 8498/2004 में पारित दिनांक 11-3-04 एवं 01-04-04 के अंतरिम आदेशों को ध्यान में रखते हुए अस्थगित रखा गया है।

## चयन सूची-2001

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	विजयश्रीकुमार	23-3-1957
2.	ए० टी० जोस	23-1-1949
3.	वर्गीस जोर्ज	30-9-1947
4.	एम० वी० सोमसुन्दरम	7-4-1947

## चयन सूची-2002

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	टी० चंद्रन	2-5-1949
2.	बी० वी० मोहनन	15-9-1948
3.	के० विजयशंकर	27-2-1950
4.	टी० वी० कमलकशन	1-6-1950
5.	एम० एन० जयप्रकाश	1-1-1950
6.	एम० बहाब	17-5-1948
7.	पी० टी० नन्दकुमार	08-07-1949
8.	टी० पी० राजगोपालन	16-2-1948
9.	पी० आई० वर्गीस	6-2-1948
10.	के० बालकृष्ण कुरुप	15-06-1948

## चयन सूची-2003

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	एम० सुभाषन	30-10-1951
2.	पी० एम० अबूबेकर	10-6-1951
3.	अस्थगित रखा गया है	
4.	अस्थगित रखा गया है	

3. तथ्यपि चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों इस संबंध में विभिन्न अदालतों में राज्य सरकार द्वारा दायर स्पष्टकारी आवेदनों/रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगी।

4. वर्ष 2002 की चयन सूची एवं वर्ष 2003 की आंशिक चयन सूची, माननीय केरल उच्च न्यायालय के अर्नाकुलम खंडपीठ में दायर रिट सं० (सी) 8498/2004 के परिणामस्वरूप अधीन होगी।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं० आई-14011/28/2003-आई० पी० एस०-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में द्वितीय परंतुक के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी :-

चयन सूची-2003

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	ए० डी० चूडासमा	21-10-1965

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 अप्रैल 2004

सं० 14031/1/2003-यूटीएस—संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-बोक्सा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री ए० वेंकटरत्नम, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, दिनांक 31 मार्च 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14031/1/2003-यूटीएस—संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-बोक्सा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री पी० के० भट्टाचार्यजी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, दिनांक 29 फरवरी 2004 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2004

सं० 20/जी/2502-प्रशा०-1—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 नवम्बर 2003 के परिचर्जन में यह अधिसूचित किया जाता है कि डॉ० पी० के० सेठ, के० सं० से० जो न्याय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 31 अक्टूबर 2003 (अपराह्न) से नियुक्त हैं, की कार्याधि पांच वर्षों के लिए अपना अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

एस० के० भट्टनागर, अवर सचिव

कामिक, लोक-शिक्षायात और पेंशन मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० 14013/31/1999-अ० भा० से० (III)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उसके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थाई करते हैं :-

नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
श्री डब्ल्यू० जी० गोरदे	1983	16-8-1991

अकील अहमद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2004

सं० 13017/4494-अ० भा० से० (I)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से श्री आर० एम० मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 37) की असम-मेघालय से उत्तर प्रदेश में दिनांक 01-03-2001 से 25-01-2002 तक अन्तःसंवर्गात्मक प्रतियोगिता पर अधिक समय रहने (ओवर स्टै) की अवधि को, एतद्द्वारा नियमित करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13013/2/2000-अ० भा० से० (I)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6 के अंतर्गत निम्नलिखित उम्मीदवारों को, उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं जिन्होंने वर्ष, 1999 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इन उम्मीदवारों के संवर्ग-आवंटन वाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
	सर्व श्री	
1.	सौरभ बाबू	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
2.	संतोष कुमार मिश्र	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
3.	सुरेश कुमार एस०	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
4.	प्रकाश जी०	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
5.	मंजू राजपाल (सुश्री)	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
6.	दिवाकर नाथ मिश्र	04-09-2000 (पूर्वाह्न)

1	2	3
7.	सुजाता राजत (सुश्री)	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
8.	बिनोद आर० राव	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
9.	पी० हेमलता (सुश्री)	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
10.	राज कुमार दिनेश सिंह	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
11.	शांतनु बसु	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
12.	अनिल भैराम	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
13.	कुमार राहुल	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
14.	आनन्द सिंह	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
15.	अभिजीत सिन्हा	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
16.	राहुल तिवारी	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
17.	डी० अनंदन	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
18.	नितिन कुमार यादव	-वही-
19.	पोंकसे सोनाली रमेश (सुश्री)	-वही-
20.	पूजा सिंघल (सुश्री)	-वही-
21.	विश्वेक कुमार पोरवाल	-वही-
22.	एम० येनारसन	-वही-
23.	पंकज पांडेय	-वही-
24.	सैयद सबाहत अजीम	-वही-
25.	बी० कार्तिकेय पांडियन	-वही-
26.	शोभित जैन	-वही-
27.	अमित गुप्ता	-वही-
28.	मनमीत कौर (सुश्री)	02-09-2001 (पूर्वाह्न)
29.	जितेन्द्र श्रीवास्तव	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
30.	दीपक अग्रवाल	-वही-
31.	अलकनंदा दयाल (सुश्री)	-वही-
32.	रणवीर प्रसाद	16-09-2000 (पूर्वाह्न)
33.	मनीष चौहान	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
34.	प्रेम सिंह मीणा	-वही-
35.	मधुप व्यास	-वही-
36.	एन० नवीन सोना	-वही-
37.	घनलक्ष्मी के० (सुश्री)	-वही-
38.	राहुल बोज्जा	-वही-
39.	दिलराज कौर (सुश्री)	-वही-
40.	मोहम्मद गुलाम अली अन्सारी	-वही-
41.	एस० सोलोमन अरोकियाराज	-वही-
42.	तोरावने मिलिंद शिवराम	20-09-2000 (पूर्वाह्न)
43.	एन० श्रवण कुमार	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
44.	अनुपम	16-09-2000 (पूर्वाह्न)
45.	पंकज मयवाल	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
46.	बी० पोन्नुराज	-वही-
47.	फेडरिक रॉय	-वही-

1	2	3
48.	संदीप यादव	16-09-2000 (पूर्वाह्न)
49.	पीयूष सिंह	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
50.	प्रेम सिंह	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
51.	निरंजन कुमार सुधांशु	16-09-2000 (पूर्वाह्न)
52.	देवाशीष प्रुस्ति	-वही-
53.	रंजन कुमार	-वही-
54.	अनुराग यादव	04-09-2000 (पूर्वाह्न)
55.	तेमजेंवापांग अजो	-वही-

के०के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं० 14015/19/2002 अ०भा०से० (I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू और कश्मीर संवर्ग में वर्ष 2002 के दौरान 6 (छः) रिक्तियां भरने हेतु चयन समिति द्वारा 29 जनवरी, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई जम्मू और कश्मीर राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
सर्वश्री		
1.	एम० एस० खान	04-01-1952
2.	के० बी० ज़िदल	16-11-1949
3.	गुलाम अहमद पीर	04-03-1952
4.	एमटीआर० तनवीर जहाँ	03-08-1955
5.	आर० के० शुस्तो	24-03-1950
6.	ए० के० रंना	14-04-1952

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं०-14015/16/2003-अ०भा०से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नागालैंड राज्य सिविल सेवा संवर्ग के सदस्यों सर्वश्री एम० यनथन (अनु०ज०जा०) और के० तोकुघा सुखालु (अनु०ज०जा०) को वर्ष 2003 की रिक्तियों पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 6 के उप नियम (1) के अधीन नागालैंड संवर्ग में आवंटित करते हैं।

के०के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 14015/16/2003-अ. भा. से. (I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग में वर्ष, 2003 के सम्बन्ध में 2 (दो) रिक्तियाँ भरने हेतु चयन समिति द्वारा 17 दिसम्बर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई नागालैंड राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली, वर्ष 2003 की प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है :—

प्रवर सूची 2003

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	एम० यमथन (अनु. ज. जा.)	01-09-1949
2.	के० तोक्धा सुखालु (अनु. ज. जा.)	04-03-1954

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 14015/19/2002-अ० भा० से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिबीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (शर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्व-श्री (1) एम०एस० खान, (2) के०बी० ज़िदल, (3) गुलाम अहमद पीर, (4) एमटीआर० तनवीर जहाँ, (5) आर०के० कुस्तो और (6) ए०के० रैना को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिबीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के निबन्ध 5 के उप नियम (1) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू और कश्मीर संवर्ग में आर्बटित करते हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2003

सं० क्यू/पी ए-1/13/2003—राष्ट्रपति ने श्री जयदीप मजुमदार, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हैं, को 19 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
श्री जयदीप मजुमदार	प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर, श्री जयदीप मजुमदार ने 19-2-2003 के पूर्वाह्न से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी

सारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एल पी/संवर्ग)

दिनांक 14 मई 2003

सं० क्यू/पी ए-1/14/2003—राष्ट्रपति ने श्री हमीद अली राव, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III (स्वस्थाने) में कार्यरत हैं, को 1 मई, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
श्री हमीद अली राव	मिशन के उप प्रमुख, भारतीय दूतावास, विएना	01-05-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर, श्री हमीद अली राव, जो पहले से स्वस्थाने आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद पर हैं, ने 1 मई, 2003 के पूर्वाह्न से निबन्धित आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एल पी/संवर्ग)

दिनांक 20 जून 2003

सं० क्यू/पी ए-1/19/2003—श्री एच०बी०एस० मनरास, क्यूआर न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त, जिनका आवास पोर्ट ब्लेयर, क्यूआर न्यू गिनी में होगा, को द रिपब्लिक ऑफ वनूआतु में भारतीय उच्चायुक्त के रूप सह प्रस्तावित किया गया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव, (एफ एल पी/संवर्ग)

दिनांक 4 जुलाई 2003

सं० क्यू/पी ए-1/21/2003—राष्ट्रपति ने श्री सीरध कुमार, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हैं, को 8 जून, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
श्री सीरध कुमार	प्रथम सचिव, भारतीय उच्चायोजन, सुवा

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर, श्री सीरध कुमार ने 8-6-2003 के पूर्वाह्न से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एल पी/संवर्ग)

दिनांक 7 जुलाई 2003

सं. क्यू/पी ए-1/24/2003—राष्ट्रपति ने श्री जी. सी. सईद

सईद, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हैं, को 1 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
श्री जी. सी. सईद	प्रथम सचिव (वित्त) (भारतीय विदेश सेवा)

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर, श्री जी. सी. सईद ने 1-7-2003 के पूर्वाह्न से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संबर्न)

दिनांक 9 जुलाई 2003

सं. क्यू/पी ए-1/25/2003—राष्ट्रपति ने श्री शील कांत शर्मा, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में कार्यरत हैं, को 1 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-II में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति की तिथि
श्री शील कांत शर्मा	संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय	1-7-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में पदोन्नत होने पर, अधिकारी ने 1-7-2003 के पूर्वाह्न से ग्रेड-III के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संबर्न)

दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. क्यू/पी ए-1/23/2003—श्री सुरेन्द्र कुमार, केन्या में भारत के नामोद्दिष्ट उच्चायुक्त, जिनका आवास नैरोबी (केन्या) में होगा, को श्री वाई०एम० तिवारी के बाद स्लेट ऑफ एरिट्रिया में अपने भारतीय राजपूत के रूप में सहप्रत्यायित किया गया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संबर्न)

दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. क्यू/पी ए-1/32/2003—राष्ट्रपति ने श्री रामू रवि, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड

में कार्यरत हैं, को 28 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
श्री रामू रवि	उप सचिव

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर, श्री रामू रवि ने 28-07-2003 के पूर्वाह्न से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संबर्न)

सं. क्यू/पी ए-1/33/2003—राष्ट्रपति ने श्री विष्णु प्रकाश जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III (स्वास्थाने) में कार्यरत हैं, को 28 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
श्री विष्णु प्रकाश	मंत्री, भारत का राजदूतावास, काहिरा	28-07-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर, श्री विष्णु प्रकाश, जो पहले से स्वस्थाने आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद पर हैं, ने 28 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से नियमित आधार पर भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार संभाल लिया।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संबर्न)

दिनांक 16 सितम्बर 2003

सं. क्यू/पी ए-1/42/2003—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत श्री हिमालय सोम को 01 सितम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
श्री हिमालय सोम	राजदूत भारतीय दूतावास, रीम	01-09-2003

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने 01-09-2003 के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संबर्न)

दिनांक १ अक्टूबर २००३

सं० क्यू/पी ए-१/४७/२००३—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत श्री राजीव सिकरी को ०१ अक्टूबर २००३ के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
१.	श्री राजीव सिकरी	अपर सचिव, विदेश मंत्रालय	०१-१०-२००३

२. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने ०१-१०-२००३ के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/केडर)

दिनांक २० अक्टूबर २००३

सं० क्यू/पी ए-६३/२००३—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड II में कार्यरत श्रीमति लीला पोन्प्पा को १ अक्टूबर २००३ के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
श्रीमति लीला पोन्प्पा	राजदूत, भारतीय दूतावास, बैंकॉक	०१-१०-२००३

२. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने १-१०-२००३ के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/केडर)

दिनांक ९ दिसम्बर २००३

सं० क्यू/पी ए-१/६८/२००३—राष्ट्रपति, वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II में कार्यरत श्री मणिलाल त्रिपाठी को १ दिसम्बर, २००३ के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति	पदोन्नति की तारीख
श्री मणिलाल त्रिपाठी	राजदूत, भारत का दूतावास, टोकियो	०१-१२-२००३

२. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नत होने पर अधिकारी ने ०१-१२-२००३ के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के

ग्रेड-II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/केडर)

दिनांक २३ दिसम्बर २००३

सं० क्यू/पी ए-१/८०/२००३—राष्ट्रपति ने श्री पवन कपूर, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हैं, को २ दिसम्बर, २००३ के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है।

२. श्री पवन कपूर की भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में २-१२-२००३ के पूर्वाह्न से नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक १५ जुलाई, १९८५ के कार्यालय ज्ञापन संख्या ८/४/८४-स्था० (वेतन-I) की शर्तों के अनुसार एक प्रोफार्मा प्रमोशन आधार पर है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संवर्ग)

दिनांक २६ दिसम्बर २००३

सं० क्यू/पी ए-१/८१/२००३—राष्ट्रपति ने श्री इन्द्र मणि पाण्डेय, जो इस समय भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत हैं, को २ दिसम्बर, २००३ के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-IV में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
१.	श्री इन्द्र मणि पाण्डेय	प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, जिनेवा

२. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में पदोन्नत होने पर, श्री इन्द्र मणि पाण्डेय ने ०२-१२-२००३ के पूर्वाह्न से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

बी० एम० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संवर्ग)

दिनांक ४ मार्च २००४

सं० क्यू/पी ए-१/१३/२००४—वर्तमान में घाना (अकरा) में भारत के उच्चायुक्त श्री के० के० फ्रमजी की १८-०२-२००४ (अपराह्न) को कार्यावधि समाप्त होने के पश्चात, सक्षम अधिकारी ने १९ फरवरी २००४ से फरवरी २००५ के अन्त तक की अवधि के लिए श्री के० के० फ्रमजी, की घाना (अकरा) में भारत के उच्चायुक्त के रूप में अवधि बढ़ा दी है।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफएसपी/संवर्ग)



सं. क्यू/पी ए-1/14/2004—राष्ट्रपति ने श्री पं. ज. सरन को इस समय भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में कार्यरत हैं, को 3 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से इस सेवा के ग्रेड-III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पश्चात् पद
श्री पं. ज. सरन	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV	भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नत होने पर, अधिकारी ने 3-2-2004 के पूर्वाह्न से ग्रेड-IV में पद का कार्य-भार छोड़ दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III के पद का कार्यभार संभाल लिया।

(बी० एन० रेड्डी, उप सचिव एफएसपी/संवर्ग)

दिनांक 9 मार्च 2004

सं. क्यू/पी ए-1/19/2004—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर मोरक्को (रबात) में भारत के राजदूत, श्री आर० राजगोपालन, 29 फरवरी, 2004 के अपराह्न को विदेश मंत्रालय सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एस पी/संवर्ग)

दिनांक 10 मार्च 2004

सं. क्यू/पी ए-1/18/2004—श्री आर० एम० अश्वकर, जो वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय में सचिव हैं, को श्री प्रदीप कुमार सिंह के बाद बेल्जियम (ब्रसेल्स) में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ उन्हें यूरोपीय समुदाय आयोग और यूरोपीय संघ परिषद के लिए भारत के राजदूत के रूप में भी सहप्रत्यायित किया गया है। उनका निवास स्थान ब्रसेल्स में होगा।

बी० एन० रेड्डी, उप सचिव (एफ एस पी/संवर्ग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. क्यू/पी ए-1/69/2003—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर विदेश मंत्रालय सेवा के ग्रेड-IV के अधिकारी, श्री ओ० पी० बजाज 30 नवम्बर, 2003 के अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बाबू पॉल, प्रशासनिक अधिकारी (पी० ए० I)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2004

भारतीय सीमा शुल्क एवं के०उ०शु० स्थापना

सं. 3/2004 (फा० सं० ए-38012/3/2004-प्रशा० II)—  
राष्ट्रपति, श्री सोमनाथ पाल, महानिदेशक, मूल्यांकन,  
2-42 GI/2004

दिल्ली की भारतीय सीमा शुल्क एवं के०उ०शु० स्थापना से संबंधित संसूच "क" से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को 4-2-04 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के नियम 48 सह-पठित मूल नियम 58 में किए गए प्रावधानों के अनुसार स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2004

सं. 4/2004 (फा० सं० ए-38012/6/2004-प्रशा०-II)—  
राष्ट्रपति, श्री एल० जी० गंधारडे, सहायक आयुक्त की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संसूच "क" से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को 10-02-2004 से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2004

सं. 05/2004 (फा० सं० ए-38012/6/2004-प्रशा०-II)—  
राष्ट्रपति, श्री एस० के० पंजाबी, सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे-II की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा संसूच "क" से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को दिनांक 14-03-2004 से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2004

सं. 02/2004 (फा० सं० ए-38012/12/03-प्रशा० II)—  
राष्ट्रपति, श्री जे० एस० जाज, संयुक्त विभागीय प्रतिनिधि, सीस्टेट की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा संसूच "क" से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को दिनांक 31-01-2004 से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2004

सं. 06/2004 (फा० सं० ए-38012/4/2004-प्रशा०-II)—  
राष्ट्रपति, श्री एस० गोपालन, अपर आयुक्त, संतकीर्ति निदेशालय, चेन्नै, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा संसूच "क" से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति को दिनांक 19-4-2004 से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2004

आयकर संस्थापना

सं. 2, फा० सं० ए-32012/05/1995-प्रशा०-VI (बंड)  
—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 16 (फा० सं० ए-32012/5/95-प्रशा०-VI) दिनांक 7-12-1999 का अधिक्रमण करते हुए जो श्री अजीत कुमार सिंह (91090) आयकर उपायुक्त,

गुजरात को वरिष्ठ वेतनमान देने के संबंध में है, राष्ट्रपति जी 1-12-1995 से 10,000-325-15,200/- रु० के वेतन-मान में वरिष्ठ वेतन (आयकर उपायुक्त का ग्रेड) प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त आदेश दायर की गई विशेष अनुमति याचिका, यदि कोई हो, के अंतिम परिणाम के अधीन है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पी० सी० भट्ट, अवर सचिव

(सक्षम प्राधिकारी एकक)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2004

(मुख्यालय स्थापना)

सं० 3/2004 फा० सं० ए-13011/3/2003-सं० प्रा०—  
राष्ट्रपति भारतीय राजस्व सेवा (1973 बैच) के अधिकारी तथा वर्तमान समय में आयुक्त, सूरत के रूप में तैनात श्री बाई० पी० पंवार को दिनांक 16 फरवरी, 2004 के पूर्वानु से और अगले आदेशों तक सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक (तस्कर एवं विदेशी मद्रा छल-साधक) (सम्पत्ति का समग्रहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वामक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ (अधिनियम, 1985) मुम्बई के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० सी० धनकर, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० ए-12011/13/03-प्रशा० I—राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के लेखा अधिकारी श्री वी० हरिहरनाथ को इसी विभाग में दिनांक 1-04-2004 से छः माह की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा उप-नियंत्रक नियुक्त करते हैं।

2. सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा उप-नियंत्रक के पद पर वी० हरिहरनाथ की उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति या अगले ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारण तथा पदोन्नति के दावे का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा इस तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई नोटिस दिए या कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

एस० सौन्दर राजन, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० 13/2/202-डीआरटी—पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, लखनऊ के पद पर प्रतिनियुक्त श्री राम प्रकाश, संयुक्त सचिव

(न्याय) एवं संयुक्त एल आर, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को वापस सुपुर्द की जाती हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2004

सं० 13/2/01-डीआरटी—बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण-II, कोलकाता में पीठासीन अधिकारी श्री सतीश कुमार को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक ऋण वसूली अधिकरण-I, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी का कार्यभार संभालने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

सं० 13/2/02-डीआरटी—बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद में पीठासीन अधिकारी श्री सी० के० लाहिडी को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ के पीठासीन अधिकारी का कार्यभार संभालने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 फरवरी 2004

सं० ए-11011/4/2001-प्रशा० I—कम्पनी विधि बोर्ड (अर्हताएं अनुभव और सदस्यों की सेवा की दूसरी शर्तें) नियम 1993 के नियम 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री एस० बालासुब्रामण्यन, उपाध्यक्ष कम्पनी विधि बोर्ड (सी एल वी) को 05/12/2003 से आगे 6 महीने की अवधि या नए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के बनने या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

रवीन्द्र दत्त, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2004

फाइल सं० ए-32014/2/2004-संवर्ग—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 20 अधिकारियों

को 25 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं। अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :—

(i) अधिकारी उसी मंत्रालय/विभाग में कार्य करते रहेंगे जहाँ वे वर्तमान में कार्यरत हैं।

(ii) तदर्थ पदोन्नति से, इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(iii) तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों को थानांतरण के अतिरिक्त इस दौरान प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर जब कभी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विशिष्ट संख्या में पद आवंटित किए जाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जाना पड़ सकता है :—

क्र० सं०	नाम
	(सर्वश्री)
1.	ए० के० अरिनहोत्री
2.	दिनेश कुमार
3.	ए० एस० सोर
4.	मुखबीर सिंह
5.	अनृत लाल
6.	जी० के० गौतम
7.	बी० के० शर्मा
8.	के० के० मजूमदार
9.	श्रीमती जीवन शर्मा
10.	पी० सी० टंडन
11.	आर० के० प्र।द
12.	श्रीमती सती मोहन दास
13.	पी० पी० नागस्थ
14.	राम स्वरूप
15.	वाई० एम० पाण्डेय
16.	एन० शिवराम ठुण्णन
17.	सुब्रत दास
18.	टी० एस० नेगी
19.	सुश्री अनीता विप्रा
20.	एस० के० देव

पी० पी० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० ए-32014/2/2004-संवर्ग—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित 43 सहायकों को 25 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं। अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :—

(i) उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः काम-चलाऊ-उपाय के रूप में की जायेगी और इससे इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ व्यवस्था, वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने तक जारी रहेंगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने की दशा में, नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति अगले आदेशों तक उसी संवर्ग में कार्यरत रहेंगे। जबकि प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की पुनः संरचना के फलस्वरूप अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परिवर्तित संख्या आवंटित करते समय, उन्हें किसी अन्य संवर्ग में अन्तर्गत किया जा सकता है।

क्र०सं०	नाम	तैनाती का स्थान/टिप्पणी
	सर्वश्री	
1.	धरविंदर सिंह	सचिवालय
2.	के० एल० मितरानी	पूति तथा निपटान महानिदेशालय
3.	सुन्दर सिंह	-वही-
4.	जगदीश कुमार डोरा	-वही-
5.	राजेन्द्र सिंह कीथी	-वही-
6.	रामनाथ साहनी	-वही-
7.	प्रवीण कुमार	-वही-
8.	होरी लाल	-वही-
9.	के० श्रीनिवासु	-वही-
10.	प्रसून कुमार झा	-वही-
11.	पंकज गुप्ता	सचिवालय
12.	किशोर बंदोपाध्याय	पूति तथा निपटान महानिदेशालय (प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावासन की तारीख अर्थात् 5 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से)
13.	ए० के० जैन	पूति तथा निपटान महानिदेशालय
14.	कृष्ण लाल	-वही-
15.	एम० एस० रंग	-वही-
16.	राम कंवर	-वही-
17.	एच० एस० केन	-वही-
18.	उत्तम कुमार विश्वास	सचिवालय
19.	श्रीमती जे० सुभ्रामथ्यम	पूति तथा निपटान महानिदेशालय
20.	जितेन्द्र आर० गायकवाड़	-वही-

1	2	3
21. श्री० के० दास	पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय	
22. सत्यजित	-वही-	
23. श्री० जी० सुब्रह्मणी	-वही-	
24. श्रीमती सरिता वर्मा	-वही-	
25. श्रीमती एस० जी० कोहली	-वही-	
26. श्रीमती कृष्ण कुमारी	-वही-	
27. राजेंद्र प्रसाद	-वही-	
(प्रतिनियुक्ति से प्रत्यमवासन की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 के पूर्वार्द्ध से)		
28. एस० के० जैन	पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय	
29. जसवीर सिंह	-वही-	
30. ए० के० वर्मा	-वही-	
31. श्रीमती कृष्ण वर्मा	सचिवालय	
32. कल्याण सिंह	पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय	
33. श्रीमती के० जी० गुलाटी	-वही-	
34. मोहन कृष्ण के०	-वही-	
35. ओम प्रकाश	-वही-	
36. देवप्रिया बरुआ	-वही-	
37. अनिल कुमार बिंदल	-वही-	
38. आर० सी० अली	-वही-	
39. नवीन खंदर	-वही-	
40. प्रवीण कुमार गुप्ता	-वही-	
41. जी० बी० शास्त्री	सचिवालय	
42. एन० के० गांगुली	पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय	
43. जे० पी० कौशिक	-वही-	
एस० दास, अवर सचिव		

सं० ए-32014/2/2004 संवर्ग— भारत के राष्ट्रपति सहित श्री एस० डी० विरदी को 25 मार्च, 2004 के पूर्वार्द्ध से कार्यरत रूप से उप सचिव नियुक्त करते हैं। श्री विरदी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :—

- श्री एस० डी० विरदी उसी मंत्रालय/विभाग में कार्य करते रहेंगे जहाँ के वर्तमान में कार्यरत हैं।
- तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या चयन श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों को इम्पेन्डिंग के अतिरिक्त इस दौरान प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर जब कभी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विशिष्ट

संख्या में पद आवंटित किए जाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जाना पड़ सकता है।

एस० दास, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० ए-32014/2/2004 संवर्ग— भारत के राष्ट्रपति सहित केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक श्री बी० पी० गुलाटी को 8 अप्रैल, 2004 के पूर्वार्द्ध से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं। अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :—

- उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः काम चलाऊ उपाय के रूप में की जाएगी और इससे इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ व्यवस्था, वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने की दशा में, नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
- अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्त अगले आदेशों तक उसी संवर्ग में कार्यरत रहेंगे। जबकि प्रशासनिक तात्कालिक आवश्यकता पड़ने पर या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की पुनः संरचना के फलस्वरूप अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परिवर्तित संख्या आवंटित करते समय, उन्हें किसी अन्य संवर्ग में अन्तर्गत किया जा सकता है।

एस० दास, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2004

सं० ए-32011/1/2004-मा० सं० II— राष्ट्रपति, कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने दिनांक 16 मार्च, 2004 के का० जा० सं० 21/6/2004-सी एस-I और दिनांक 25-3-2004 के का० जा० सं० 21/9/2004-सी एस-I के सहित जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में उर्वरक विभाग एवं रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के सम्मिलित संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से तदर्थ

अधिकार पर रु० 6500-200-10500/- के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम एवं पद	सहायक जे० का चयन सूची क्र०	अनुपस्थिति
1	श्री एस०पी० सैनी* 1988	डीपीईए में प्रतिनियुक्ति पर	
2	श्री सुनील चौहान* 1989	एफआईसीसी में प्रतिनियुक्ति पर	
3	श्री सुजय चव्हाणी	" 25/3/2004 (पूर्वार्द्ध)	
4	श्री आर०के० कुंदेलिया	" " "	
5	श्री सी०पी० सिंह	" " "	
6	श्री एस०सी० गोयल	" " "	
7	श्री एम०आर० सांकला	" " "	
8	श्री के०एस० बरवार	" " "	
9	श्री सीता राम	" " "	
10	श्री एस०के० पुरी	" " "	
11	श्रीमती श्री०के० गुप्ता	" " "	
12	श्री आर०के० जैन*	" लबी छुट्टी पर/विदेश	

\*सर्व श्री एस०पी० सैनी, सुनील चौहान और आर०के० जैन के मामले में प्रभावी तारीख इस विभाग में उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख होगी।

2. यह तदर्थ प्रदत्त इस ग्रेड में निरन्तर बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में बरिफ्टा का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

ए०पी० सिंह, निदेशक

उपनिर्देशक, मामले, छात्र और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० ए-12011/1/93-स्था-I—राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय में उप निदेशक, डा. एम.एम. वर्मा की उसी संगठन में 12000-375-16,500/-रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में तदर्थ नियुक्ति को 14-11-03 से 13-5-04 तक अथवा नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, अवसर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2004

सं० ए-32013/1/2004-स्था-I—राष्ट्रपति, निम्नलिखित रूप सचिवों (इन-चीफ) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

में 25 मार्च, 2004 के पूर्वार्द्ध से 12,000-16,500/-रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती अनिता फटेका
2. श्री जगदेव लाल
3. श्री के० एन० मेहता
4. श्री जे० पी० अग्रवाल
5. श्री पी० कल्याणसुन्दरम।

एम० एल० मल्होत्रा, अवसर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 8 अप्रैल 2004

सं० ए-01/04/04-प्रशा-I (ए)—राष्ट्रपति, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून के सहायक निदेशक, श्री ओम प्रकाश नाथा को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 10000-325-15200/-रुपये के वेतनमान में 7 अप्रैल, 2004 (पूर्वार्द्ध) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा श्री के० आर० एस० कृष्णन के अपनी प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तित होने तक अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैकल्पिक 'श्री' के पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति कामिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय सं० 2/29/91-स्था० (वेतन-II) दिनांक 5-01-1994 में निहित अनुशेषों के अनुसार होगी।

के० एस० मेघनाथन, निदेशक

नई दिल्ली-110016, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० ए-12011/02/2004-प्रशा-I (ए)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के कार्यालय सं० 21/11/2004-सी एस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित उप सचिवों (स्व-स्थाने) को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 12000-375-16500/-रुपये के वेतनमान में उप सचिव (तदर्थ) के रूप में तदर्थ नियुक्त करते हैं तथा आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस० सी० चावला
2. श्री बी०बी० मेहतानी

2. यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में नियमित काम के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चुन ली में शामिल करने अथवा सर्वेक्षण ग्रेड में प्रतिनियुक्ति पर जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

देवेन्द्र नाथ, अवसर सचिव

सं० ए-12011/02/2004-प्रशा० 1(ए)--कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के कां० शा० सं० 21/10/2004-सी एस I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अवर सचिवों (स्व स्थाने) को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में 10,000-325-15,200/- सं० के वेतनमान में अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में तत्काल प्रभाव से तथा आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

1. श्री बी० के० रायचन्दानी, अवर सचिव
2. श्री जे० पी० भाटिया, अवर सचिव
3. श्री कमल प्रकाश, अवर सचिव
4. श्री एस० चक्रवर्ती, अवर सचिव
5. श्री टी० के० गुप्ता, अवर सचिव
6. श्री एस० के० आहूजा, अवर सचिव
7. श्री एस० पी० कतनौरिया, अवर सचिव
8. श्री आर० डी० गुप्ता, अवर सचिव
9. श्री बक्षी राम, अवर सचिव
10. श्री वी० के० वाधवा, अवर सचिव
11. श्री के० के० खट्टर, अवर सचिव
12. श्री टी० आर० शर्मा, अवर सचिव
13. श्री ओ० पी० रस्तोगी, अवर सचिव
14. श्री शाम लाल, अवर सचिव

2. यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने अथवा सलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

देवेन्द्र नाथ, अवर सचिव

#### पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मार्च 2004

सं० 17013/9/2003-भा० व० से०-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी० शशिधरन (जन्मतिथि 6-5-1949) केरल राज्य वन सेवा के अधिकारी को वर्ष 1999 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत 8 मार्च 2004 से भारतीय वन सेवा का केरल संवर्ग आवंटित करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 मार्च 2004

सं० 17013/03/2000-भा० व० से०-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने चयन समिति की 24 नवम्बर 2003 की हुई बैठक में 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1999 और 1 जनवरी 2000 की भारतीय वन सेवा के बिहार संवर्ग में पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की गई वर्ष 1998-2000 की चयन सूची को 20 फरवरी 2004 को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें बिहार राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम शामिल हैं :-

1998 की चयन सूची :

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	विजय नारायण प्रसाद	12-1-1956
2.	जे० पी० एन० सिन्हा	22-1-1958
3.	अनूप कुमार सिन्हा	1-7-1958

2. क्रम सं० 1 के अधिकारी का नाम अस्थायी रूप से शामिल किया गया है जब तक कि उनके विरुद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती और राज्य सरकार उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर देती।

1999 की चयन सूची :

क्रम सं०	नाम (सर्वश्री)	जन्म-तिथि
0*	विजय नारायण प्रसाद	12-01-1956
1.	बबन प्रसाद सिन्हा	01-07-1958
2.	मुगल किशोर सिंह	28-04-1953
3.	सुधीर कुमार ठाकुर	01-03-1958

\* क्रम संख्या 0 के अधिकारी का नाम सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है जब तक कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती और राज्य सरकार विनियम 5 (4) के दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं कर देती।

2000 की चयन सूची :

क्रम सं०	नाम (सर्वश्री)	जन्म-तिथि
0.*	विजय नारायण प्रसाद	12-01-1956
1.	एस० एन० पाण्डेय	17-01-1956
2.@	रवि शंकर कुमार	16-01-1962
3.	राजवंश सिंह	04-11-1957
4.††	जगन्नाथ सांगा	17-07-1950

\* क्रम संख्या 0 के अधिकारी का नाम सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है जब तक कि उसके विरुद्ध अनुशास-

नात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है और राज्य सरकार विनियम 5 (4) के दूसरे उपबन्ध के संदर्भ में चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं कर देती।

@क्रम सं० 2 के अधिकारी का नाम सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है जब तक कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है और राज्य सरकार सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं कर देती।

†† क्रम संख्या 4 के अधिकारी का नाम सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। जब तक कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है और राज्य सरकार उन्हें सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं कर देती।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2004

सं० 17013/68/2001-भा० व० से०-II—राष्ट्रपति भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य वन सेवा के निम्नलिखित दो अधिकारियों को वर्ष 2003 की चयन सूची के आधार पर 27 मार्च, 2004 से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा का कर्नाटक संवर्ग आवंटित करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	जन्म-तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	के० डी० अड्डाडी	01-06-1958
2.	एच० सी० कान्थाराजू	26-07-1958

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० 19011/6/2004-भा० व० सेवा-I (. )—राष्ट्रपति भारतीय वन सेवा के कर्नाटक संवर्ग के 1976 बैच के अधिकारी श्री एस० के० रामलिंगे गौड़ा को 5 अप्रैल, 2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वन महा निरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० पराशर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० ए०-12025/358/91-सी० एच० एस० I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० जी० लीलाबाई को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रुपये (पूर्व-संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० जी० लीलाबाई को उसी तारीख से केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपेट, तमिल-नाडु के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए०-12025/130/94-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० सुशील कुमार को 21/9/1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-दक्षता रोड-100-4000/-रुपये (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० सुशील कुमार को श्रम मंत्रालय (श्रम कल्याण संगठन, कर्मा) नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/141/94-सी० एच० एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० (श्रीमती) अंजना पंकज को 12 मार्च, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-13,500/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० (श्रीमती) अंजना पंकज को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लखनऊ के अधीन उसी तारीख से चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अप्रैल 2004

सं० ए०-19012/4/2004-ई० ए० I—राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-IV के कनिष्ठ समय वेतनमान स्तर की अधिकारी सुश्री स्वपना बनर्जी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8,000/-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में 11 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

सं. ए० 15012/2004-प्रशा०-1-राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-IV के कनिष्ठ तथैयें वेतनमान स्तर के अधिकारी श्री अश्वान कुमार जेना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 12,000-375-18,500/- रुपये के वेतनमान में 29 जनवरी, 2004 की पूर्वाह्ति में उप सांख्यिकी सहायकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजकुमार, अवर सचिव

सं. 5023 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र केनाटक राज्य एक बंगलूर, में वैज्ञानिक अधिकासी/इंजीनियर ग्रेड 'एस' बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 23 फरवरी 2000 की अपराह्ति से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

प्रधानी सुद्धरे, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

(डाक विभाग)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2004

सं. ए० 15-2009/2002-स्था०-1-राष्ट्रपति, श्रीमती सुमित्रा देसाई, आई० एस० (महाराष्ट्र : 69) को 1 अप्रैल, 2004 की पूर्वाह्ति से प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० एस० पाण्डेय, संयुक्त सचिव

सं. ए० 15-2013/2002-स्था०-1-राष्ट्रपति, श्री एस० सी० सिपाठी, आई० एस० (उ०प्र० 68) को 1 अप्रैल, 2004 की पूर्वाह्ति से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० एस० पाण्डेय, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1100 01, दिनांक 16 अप्रैल 2004

सं. 2-1/2002-प्रशा०-1-राष्ट्रपति डाक विभाग के संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उसी सर्वे में 01-01-2004 से 31-3-2004 तक तदर्थ आधार पर अनुभवा अधिकारियों के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

क्रम सं०	नाम
1.	श्री जगदीश प्रसाद (अ० जा०)
2.	श्री एस० आचार्य
3.	श्री प्रेम नारायण (अ० जी०)
4.	श्री गणेश सिंह

2. उपर्युक्त नियुक्तियों अधिकारियों को नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती हैं तथा की गई तदर्थ सेवा ग्रेड में वरिष्ठता आदि के प्रतीजन के लिए नहीं गिनी जायेगी।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा०)

संघीय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अप्रैल 2004

सं. ए-39013/1/2000-प्रशा० I-महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र एतद्वारा श्री ब्रह्मनन्द मराठे, कर्मचारी कोड

सं. 1-1/2004-प्रशा०-1-कायिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कौशलिय जॉर्नल सं. 21/10/2004-सांएस-1 दिनांक 25-3-2004 के अनुसार में राष्ट्रपति डाक विभाग में व्यक्तिगत उन्नयन आधार पर तदर्थकों में निदेशक (केंद्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-1) का पद धारण करने वाले केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को



10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में 25-3-2004 से उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर उसी पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम
1.	श्री पी० सी० प्रतिहारी
2.	श्री ओम प्रकाश
3.	श्री एस० एस० मेहरा (अ०जा०)
4.	श्री ए० पी० श्रीवास्तव
5.	श्री राजेन्द्र कुमार
6.	श्री भरत राम
7.	श्री बी० एस० जोषड़ा

2. यह तदर्थ नियुक्ति अनिश्चित अवधि तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

3. वैयक्तिक आधार पर अवर सचिव के स्तर पर स्वेच्छान्तर अनुशासन अधिकारी/डैस्क अधिकारी के पद और श्री भरत राम द्वारा धारित सहायक महानिदेशक (जीसीएस) का पद संश्लेषित अधिकारियों द्वारा त्याग जायेंगे और अब जबकि तदर्थ नियुक्तियाँ अधिसूचित कर दी गई हैं, यह माना जाएगा कि डाक विभाग में तदनुकूपी संख्या में सहायक महानिदेशक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I) के पद सृजित किए गए हैं।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सं० 1-1/2004-प्रशासन-1-कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 21/11/2004-सी०एस०-I दिनांक 25-03-2004 के अनुसार में राष्ट्रपति डाक विभाग में वैयक्तिक उन्मयन के आधार पर निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का चयन ग्रेड) का पद धारण करने वाले सीएसएस अधिकारी, श्री ए० के० कौशल को 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में 25-3-2004 से उसी संवर्ग में पूर्ण तथा तदर्थ आधार पर उसी पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

3. अधिकारी द्वारा वैयक्तिक आधार पर धारित निदेशक (जीसीएस) के पद का त्याग किया जाएगा और अब जब कि तदर्थ नियुक्ति अधिसूचित कर दी गई है, यह माना जाएगा कि विभाग में निदेशक (सीएसएस का चयन ग्रेड) का तदनुकूपी पद सृजित किया गया है।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2004

शुद्धि पत्र

सं० 95/स्था० (राज० भ) I/32/1-रेलवे बोर्ड की दिनांक 28-4-98 की अधिसूचना सं० 95/स्था० (राज० भ) I/32/1 में उल्लिखित श्री मनोज कुमार और रेखा यादव के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी० आर०)  
(रेलवे बोर्ड)

सं० 96/स्था० (राज० भ) I/4/1-रेलवे बोर्ड की दिनांक 8-8-2000 की अधिसूचना सं० 96/स्था० (राज० भ) I/4/1 में उल्लिखित सर्वश्री सीरम चौधरी, आर० मुहम्मदराज, नरेन्द्र ए० पाटोल और अरविन्द कुमार रजाक के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी० आर०)  
(रेलवे बोर्ड)

सं० 96/स्था० (राज० भ) I/6/1-रेलवे बोर्ड की दिनांक 29-9-2000 की अधिसूचना सं० 96/स्था० (राज० भ) I/6/1 में उल्लिखित श्री राजेश कुलहारी के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाए।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी० आर०)  
(रेलवे बोर्ड)

सं० 97/स्था० (राज० भ) I/4/1-रेलवे बोर्ड की दिनांक 8-8-2000 की अधिसूचना सं० 97/स्था० (राज० भ) I/4/1

में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाये।

सर्व श्री

1. मुकुल कुमार
2. राजू भूतिया
3. शरद श्रीवास्तव
4. सुमित गुप्ता
5. हरविन्दर सिंह बाजवा
6. महेश चन्द पांड
7. धीरेन्द्र कुमार वमा
8. अरविन्द कुमार सिंह
9. आई जय कुमार
10. एस बालाजी अरुण कुमार
11. रमा कान्त सिंह
12. रजनीश देव बर्मन

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर) (रेलवे बोर्ड)

सं० 97/स्था० (राज० भ) I/6/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 11-10-2001 की अधिसूचना सं० 97/स्था० (राज० भ) I/6/1 में उल्लिखित सर्व श्री मुकेश चन्द मीणा, शलभ त्यागी, जी० गणेशामूर्ति, राजू लाल मीणा और रामदयाल मीणा के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, स्था० (जी आर)  
(रेलवे बोर्ड)

सं० 97/स्था० (राज० भ) I/9/1—रेलवे बोर्ड की दिनांक 28-8-2001 की अधिसूचना सं० 97/स्था० (राज० भ) I/9/1 में उल्लिखित सर्व श्री राकेश रंजन, राकेश गुप्ता, संदीप कुमार और आर श्रीनिवास के नाम के सामने उल्लिखित अन्तिम शब्द को हटा दिया जाये।

ममता कण्डवाल,  
उप निदेशक, स्था० (जी० आर०) (रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2004

सं० ए० 12025/2/2003-स्था० II—राष्ट्रपति श्री संदीप गौड़ को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 29-03-2004 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर प्केतनमान सं० 8000-275-13500/- में नियुक्त करते हैं।

ए० पी० पाटी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2004

सं० 11/2004 (मि० सं० ए-38012/1/2004-प्रशा० एक)—अधिवसिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एस० सी० बनर्जी,

जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 मार्च, 2004 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विक्रम चन्द्र काजिला, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2004

सं०-8/2004, फाइल सं०-2/1/2003-प्रशा०—अध्यक्ष, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल के पद से श्री सुरेश पी० प्रभु द्वारा 31-03-2004 के अपराह्न से हस्तीफा दे देने के पश्चात श्री निखिलेश झा, कार्यकारी सहायक, भूतपूर्व अध्यक्ष, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल को 01-04-2004 से 15-04-2004 तक 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान की जाती है। उन्हें 16-04-2004 से 24-05-2004 तक 39 दिनों की अवधि के लिए अजित छुट्टी मंजूर की जाती है।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं०-9/2004, फाइल सं०-2/1/2003-प्रशा०—अध्यक्ष, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल, के पद से श्री सुरेश पी० प्रभु द्वारा 31-3-2004 के अपराह्न से हस्तीफा दे देने के पश्चात श्री एम० एम० आहूजा, अतिरिक्त निजी सचिव, भूतपूर्व अध्यक्ष, नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल, को 1-4-2004 से 15-4-2004 तक 15 दिनों की समापन अवधि प्रदान की जाती है। उन्हें 16-4-2004 से 24-5-2004 तक 39 दिनों की अवधि के लिए अजित छुट्टी मंजूर की जाती है।

छुट्टी के समाप्त हो जाने के उपरान्त श्री एम० एम० आहूजा अगली तैनाती के लिए अपने संवर्ग अर्थात् वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में रिपोर्ट करेंगे।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2004

सं०-11016/14/2003-सी एस एस-II—श्री एस० सी० पाण्डेय, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधीकरण सह-श्रम न्यायालय-1, मुंबई को इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-3-2004 के द्वारा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-II मुंबई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

राष्ट्रपति, श्री एस० सी० पाण्डेय, पीठासीन अधिकारी को उन विवादों के निपटान के लिए भी प्राधिकृत करते हैं जो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय-II मुंबई के समक्ष लम्बित हैं और अगले आदेश होने तक भविष्य में इस भेजे जा सकते हैं।

वाई० पी० सहगल, अवर सचिव

**LOK SABHA SECRETARIAT**

New Delhi-110001, the 7th April 2004

No. PF 3014 (3)/GN-5146/AN-I/2004—On reversion from deputation to the Regional Passport Office, Guwahati, Shri Khakhai Zou has resumed duties in this Secretariat as EO/LO/CO/PO in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from the forenoon of 26th April 2004.

P. SREEDHARAN, Director

New Delhi-110001, the 15th April 2004

No. PF. 1878 (3)/GN-5147/AN-I/2004—On reversion from deputation to Nagaland Legislative Assembly Secretariat, Kohima, Shri R. Kothandaraman has resumed duties in this Secretariat as Director in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300 with effect from the afternoon of 02nd April, 2004.

ANAND B. KULKARNI, Joint Secy.

The 16th April 2004

No. PF. 1819(3)/GN-5148/AN-I/2004—The Speaker is pleased to appoint Shri A. Louis Martin, Director, Lok Sabha Secretariat as Estate Officer with effect from 2nd February, 2004, until further orders, to exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (No. 40 of 1971) and as notified by the Ministry of Urban Development vide S. O. No. 3507 dated 8th November, 1988 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 26th November 1988.

ANAND B. KULKARNI, Joint Secy.

**CABINET SECRETARIAT**

New Delhi, the 5th April 2004

No. A-19013/1/2004-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri K. L. Sharma, Deputy Secretary (in-situ) in the Cabinet Secretariat as Deputy Secretary on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 24th March 2004.

A. MOHANAN, Under Secy.

**OFFICE OF THE PRINCIPAL SCIENTIFIC ADVISER**

New Delhi-110 011, the 29th March 2004

No. Prn. SA/02 (02)/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Neeraj Sinha as Scientist 'E' in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 on permanent absorption basis in the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India w.e.f. the forenoon of the 22nd of March 2004.

M. RAI, Under Secy

No. Prn. SA/02(02)/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. R. P. Gupta as Scientist 'E' in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 on permanent absorption basis in the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India w.e.f. the forenoon of 22nd of March 2004.

M. RAI, Under Secy.

**PLANNING COMMISSION**

New Delhi, the 6th April 2004

No. A. 43014/03.2000-Admn.II—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 11016/1999-IES, dated 27.2.2004, Shri R. P. Mishra has assumed charge as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from 29.3.2004 (FN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

**MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION**

New Delhi, the 1st April 2004

No. 12018/1/2003-ISS—On attaining the age of superannuation, Shri M. Neelakantan, a HAG level officer of ISS and posted as Additional Director General, Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi retired from service on 31.3.2004 (AN).

BHARATI DATTA, Under Secy.

New Delhi, the 15th April 2004

No. A-19018/1/2004-Ad. IV—In pursuance of this Ministry's Office Order No. 12015/2/2004-ISS (1) dated 1.4.2004, Sh. Ram Anuj Dwivedi, an Officer of Junior Administrative Grade (JAG) of ISS, has assumed charge of the post of Joint Director in CPD, NSSO w.e.f. the afternoon of 5.4.2004.

G. S. BASRAN, Under Secy.

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

New Delhi, the 13th April 2004

**CORRIGENDUM**

No. A-31013/1/2003-Admn. III (LA)—In partial modification of this Department's notification of even number dated 15th March 2004, the date of substantive appointment as Member, ITAT shown as "24.12.02" in respect of Shri Joginder Singh, JM at serial number 49 be read as "24.7.02".

YASHWANT SINGH, Under Secy

## (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 12th April 2004

No. K. 13016/1/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pradeep Nandrajog, Additional Judge of the Delhi High Court, to be a Judge of the Delhi High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th April 2004

No. I-14011/11/2003-IPS.I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Kerala Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Kerala under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

## SELECT LIST-2001

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Vijayasreekumar	23.03.1957
2.	A. T. Jose	23.01.1949
3.	Varghese George	30.09.1947
4.	M. V. Somasundaram	07.04.1947

## SELECT LIST-2002

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	T. Chandran	02.05.1949
2.	V. V. Mohanan	15.09.1948
3.	K. Vijayasankar	27.02.1950
4.	T. V. Kamalakshan	01.06.1950
5.	M. N. Jayaprakash	01.01.1950
6.	M. Wahab	17.05.1948
7.	P. T. Nandakumar	08.07.1949
8.	T. P. Rajagopalan	16.02.1948
9.	P. I. Varghese	06.02.1948
10.	K. Balakrishna Kurup	15.06.1948

## SELECT LIST-2003

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	M. Sugathan	30.10.1951
2.	P. M. Abboobacker	10.06.1951

The appointments of S/Shri A. T. Jose, Varghese George, M. V. Somasundaram, V. V. Mohanan, M. Wahab, T. P. Rajagopalan, P. I. Varghese and K. Balakrishna Kurup will however, be provisional and subject to the outcome of Clarificatory Applications/Writ Petitions filed by the State Government in various Courts in this regard alongwith the right of Government of India to file appeal against in the higher Courts.

S.P. VERMA, Under Secy.

No. I-14011/11/2003-IPS.I—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 09.02.2004, approved the year-wise Select Lists of 2001, 2002 and 2003, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 24.12.2003, containing names of the State Police Service Officers of Kerala, for filling up four, ten and four substantive vacancies in the IPS Kerala Cadre during 2003.

2. The names of officers at Sl. Nos. 3 and 4 in the Select List of year 2003 have been kept in abeyance in view of the interim orders dated 11.03.2004/01.04/2004 passed by Hon'ble High Court of Kerala at Ernakulam in W. P. (C) No. 8498/2004.

3. The Names of other State Police Service officers as approved by Union Public Service Commission for the respective Select Lists are as under.

## SELECT LIST-2001

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Vijayasreekumar	23.03.1957
2.	A. T. Jose	23.01.1949
3.	Varghese George	30.09.1947
4.	M. V. Somasundaram	07.04.1947

## SELECT LIST-2002

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	T. Chandran	02.05.1949
2.	V. V. Mohanan	15.09.1948
3.	K. Vijayasankar	27.02.1950
4.	T. V. Kamalakshan	01.06.1950
5.	M. N. Jayaprakash	01.01.1950
6.	M. Wahab	17.05.1948
7.	P. T. Nandakumar	08.07.1949
8.	T. P. Rajagopalan	16.02.1948
9.	P. I. Varghese	06.02.1948
10.	K. Balakrishna Kurup	15.06.1948

## SELECT LIST-2003

S.No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	M. Sugathan	30.10.1951
2.	P. M. Aboobacker	10.06.1951
3.	Kept in abeyance	
4.	Kept in abeyance	

4. The recommendations of the Selection Committee will however, be subject to the outcome of Clarificatory Applications/Writ Petitions filed by the State Government in various courts in this regard.

5. The recommendations of Select List of 2002 and Part 2003 are further subject to the final outcome of W.P. (C) No. 8498/2004 pending before the Hon'ble High Court of Kerala at Ernakulam.

S.P. VERMA, Under Secy.

The 19th April 2004

No. I-14011/26/2003-IPS.I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with second proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following member of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Gujarat under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

## SELECT LIST-2003

S.No.	Name	Date of Birth
1.	Shri A.D. Chudasama	21.10.1965

S.P. VERMA, Under Secy.

New Delhi-1, the 20th April 2004

No. 14031/1/2003-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri A. Venkataratnam, Indian Administrative Service Officer of 1984 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st March, 2004.

K.K. KALRA, Under Secy.

No. 140231/1/2003-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri P.K. Bhattacharjee, Indian Administrative Service Officer of 1991 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 29th February, 2004.

K.K. KALRA, Under Secy.

New Delhi, the 20th April 2004

## ADDENDUM

No 20/G/2502-Ad. I—In addition to this Ministry's Notification of even number dated 5th November, 2003, it is notified that the tenure of Dr. P.K. Seth, CSS, appointed as Joint Secretary in the Department of Justice from 31st October, 2003 (AN) shall be for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES &amp; PENSIONS

## (DEPARTMENT OF PERSONNEL &amp; TRAINING)

New Delhi, the 12th April 2004

No. 14013/31/1999-AIS(III)—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra with effect from the date shown against him:—

S.No.	Name	Batch	Date of confirmation
1.	Shri W.G. Gorde	1983	16.8.1991

AQEELAHMAD, Dy. Secy.

New Delhi, the 15th April, 2004

No. 13017/4494-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rule, 1954, and with the concurrence of the Government of Uttar Pradesh, the Central Govt. hereby regularise the period of over stayal of Shri R.M. Mishra, IAS (RR:87) on inter cadre deputation from Assam-Meghalaya to Uttar Pradesh from 1.3.2001 to 25.1.2002.

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 13013/2/2000-AIS(I)—Under Rule 6 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidates who competed successfully at the Civil Services Examination held in 1999 to the Indian Administrative Services, on probation with effect from the date shown against their names. The cadre allocation of these candidates will be notified in due course :

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1	2	3
	S/Shri	
1.	Sorabh Babu	4.9.2000(FN)
2.	Santosh Kumar Misra	4.9.2000 (FN)

1	2	3	1	2	3
	S/Shri			S/Shri	
3.	Suresh Kumar S.	4.9.2000 (FN)	40.	Mohammad Ghulam Ali Ansari	4.9.2000 (FN)
4.	Prakash G	4.9.2000 (FN)	41.	S. Solomon Arokiaraj	4.9.2000 (FN)
5.	Manju Rajpal (Ms.)	4.9.2000 (FN)	42.	Torawane Milind Shivaram	20.9.2000 (FN)
6.	Diwakar Nath Misra	4.9.2000 (FN)	43.	N. Saravana Kumar	4.9.2000 (FN)
7.	Sujata Rout (Ms.)	4.9.2000 (FN)	44.	Anupam	16.9.2000 (FN)
8.	Vinod R. Rao	4.9.2000 (FN)	45.	Pankaj Agarwal	4.9.2000 (FN)
9.	P. Hemalatha (Ms)	4.9.2000 (FN)	46.	V. Ponnuraj	4.9.2000 (FN)
10.	Raj Kumar Dinesh Singh	4.9.2000 (FN)	47.	Frederick Roy	4.9.2000 (FN)
11.	Santanu Basu	4.9.2000 (FN)	48.	Sandeep Yadav	4.9.2000 (FN)
12.	Anil Meshram	4.9.2000 (FN)	49.	Piyush Singh	4.9.2000 (FN)
13.	Kumar Rahul	4.9.2000 (FN)	50.	Prem Singh	4.9.2000 (FN)
14.	Anand Singh	4.9.2000 (FN)	51.	Nirajan Kumar Sudhanshu	16.9.2000 (FN)
15.	Abhijit Sinha	4.9.2000 (FN)	52.	Debasish Prusty	16.9.2000 (FN)
16.	Rahul Tiwari	4.9.2000 (FN)	53.	Ranjan Kumar	16.9.2000 (FN)
17.	D. Anandan	4.9.2000 (FN)	54.	Anurag Yadava	4.9.2000 (FN)
18.	Nitin Kumar Yadav	4.9.2000 (FN)	55.	Temjenwapang Ao	4.9.2000 (FN)
19.	Ponkshe Sonali Ramesh (Ms.)	4.9.2000 (FN)	K.K. SHARMA, Desk Officer		
20.	Pooja Singhal (Ms.)	4.9.2000 (FN)	The 19th April 2004		
21.	Vivek Kumar Porwal	4.9.2000 (FN)	No. 14015/19/2002-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List containing the names of the following members of the State Civil Service belonging to Jammu & Kashmir prepared by the Selection Committee in its meetings held on 29th January, 2003, towards filling up six (06) vacancies in the Jammu & Kashmir Cadre of the Indian Administrative Service during 2002 :—		
22.	M. Thennarasan	4.9.2000 (FN)			
23.	Pankaj Pandey	4.9.2000 (FN)			
24.	Syed Sabahat Azim	4.9.2000 (FN)			
25.	V. Karthikeya Pandian	4.9.2000 (FN)			
26.	Shobhit Jain	4.9.2000 (FN)			
27.	Amit Gupta	4.9.2000 (FN)			
28.	Manmeet Kaur (Ms.)	2.9.2001 (FN)			
29.	Jitendra Srivastava	4.9.2000 (FN)			
30.	Deepak Agarwal	4.9.2000 (FN)			
31.	Alaknanda Dayal (Ms.)	4.9.2000 (FN)			
32.	Ranvir Prasad	16.9.2000 (FN)			
33.	Maneesh Chauhan	4.9.2000 (FN)			
34.	Prem Singh Meena	4.9.2000 (FN)			
35.	Madhup Vyas	4.9.2000 (FN)			
36.	N. Nawin Sona	4.9.2000 (FN)			
37.	Dhanalakshmi K (Ms.)	4.9.2000 (FN)			
38.	Rahul Bojja	4.9.2000 (FN)			
39.	Dilraj Kaur (Ms.)	4.9.2000 (FN)			

K. K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/16/2003-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian

Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri M. Yanthan (ST) and K. Tokugha Sukhalu (ST), members of the State Civil Service of Nagaland Cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2003 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Nagaland Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/16/2003-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List for the year 2003 for Nagaland Cadre containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Nagaland prepared by the Selection Committee in its meetings held on 17th December, 2003 towards filling up 02 (two) vacancies for the year 2003 in the Indian Administrative Service, Nagaland Cadre:—

#### SELECT LIST 2003

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	M. Yanthan (ST)	01.09.1949
2.	K. Tokugha Sukhalu (ST)	04.03.1954

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/19/2002-AIS-(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) M. S. Khan, (2) K. B. Jandial, (3) Ghulam Ahmed Peer, (4) MTR Tanveer Jehan, (5) R. K. Thusso, and (6) A. K. Raina, members of the State Civil Service of Jammu & Kashmir to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Jammu & Kashmir Cadre of the IAS, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

K. K. SHARMA, Desk Officer

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th May 2003

No. Q/PA-I/13/2003—The President is pleased to appoint Shri Jaideep Mazumdar presently in the Junior

Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 19th February 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Shri Jaideep Mazumdar	First Secretary, PMI, New York

2. On promotion to Grade IV of IFS, Shri Jaideep Mazumdar relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon of 19.02.2003 and assumed charge of the post in Grade IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 14th May 2003

No. Q/PA-I/14/2003—The President is pleased to appoint Shri Hamid Ali Rao presently in the Grade-III (In-situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 1st May 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri Hamid Ali Rao	Deputy Chief of Mission, EOI, Vienna	01.05.2003

2. On promotion to Grade III of IFS, Shri Hamid Ali Rao who is already in Grade III of IFS on in-situ basis, assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from forenoon of the 1st May 2003 on regular basis.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 20th June 2003

No. Q/PA-I/19/2003—Shri H. V. S. Manral, High Commissioner of India to Papua New Guinea, has been concurrently accredited as High Commissioner of India to The Republic of Vanuatu, with residence in Port Moresby, Papua New Guinea.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 4th July 2003

No. Q/PA-I/21/2003—The President is pleased to appoint Shri Saurabh Kumar presently in the Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 8th June 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Shri Saurabh Kumar	First Secretary, HCI, Suva

2. On promotion to Grade IV of IFS, Shri Saurabh Kumar relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon

of 08.06.2003 and assumed charge of the post in Grade IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 7th July 2003

No. Q/PA-I/24/2003—The President is pleased to appoint Dr. Ausaf Sayeed presently in the Junior Administrative Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 1st July 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Dr. Ausaf Sayeed	First Secretary (HOC), EOI, Copenhagen

2. On promotion to Grade IV of IFS, Dr. Ausaf Sayeed relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon of 01.07.2003 and assumed charge of the post in Grade IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 9th July 2003

No. Q/PA-I/25/2003—The President is pleased to appoint Dr. Sheel Kant Sharma presently an officer in the Grade III in the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-II of the service with effect from the forenoon of 1st July 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Dr. Sheel Kant Sharma	Joint Secretary, MEA.	01.07.2003

2. On promotion to Grade II of IFS, the Officer relinquished charge of the Post in Grade III with effect from forenoon of 01.07.2003 and assumed charge of the post in Grade II of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 10th July 2003

No. Q/PA-I/23/2003—Shri Surendra Kumar, High Commissioner-designate of India to Kenya, has been concurrently accredited as the next Ambassador of India to the State of Eritrea in succession to Shri Y. M. Tiwari, with residence in Nairobi (Kenya).

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 28th July 2003

No. Q/PA-I/32/2003—The President is pleased to appoint Shri Dammu Ravi presently in the Junior Administrative

Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 28th July 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Shri Dammu Ravi	Deputy Secretary

2. On promotion to Grade IV of IFS, Shri Dammu Ravi relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon of 28.07.2003 and assumed charge of the post in Grade IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/33/2003—The President is pleased to appoint Shri Vishnu Prakash presently in the Grade-III (In-situ) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 28th July 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri Vishnu Prakash	Minister, EOI, Cairo	28.07.2003

2. On promotion to Grade III of IFS, Shri Vishnu Prakash who is already in Grade III of IFS on in-situ basis, assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from forenoon of the 28th July 2003 on regular basis.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 16th September 2003

No. Q/PA-I/42/2003—The President is pleased to appoint Shri Himachal Som presently in the Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of 1st September 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri Himachal Som	Ambassador, EOI, Rome	01.09.2003

2. On promotion to Grade I of IFS, the Officer relinquished charge of the Post in Grade II with effect from forenoon of 01.09.2003 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 1st October 2003

No. Q/PA-I/47/2003—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Sikri presently in the Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of 1st October 2003.



Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri Rajiv Sikri	Additional Secretary, MEA	01.10.2003

2. On promotion to Grade I of IFS, the Officer relinquished charge of the Post in Grade II with effect from forenoon of 1.10.2003 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 20th October 2003

No. Q/PA-I/53/2003—The President is pleased to appoint Smt Leela Ponappa presently an officer in the Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of 1st October 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Smt Leela Ponappa	Amassador, EOI, Bangkok	01.10.2003

2. On promotion to Grade I of IFS, the Officer relinquished charge of the Post in Grade II with effect from forenoon of 1.10.2003 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 9th December 2003

No. Q/PA-I/68/2003—The President is pleased to appoint Shri Manilal Tripathi presently an officer in the Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the service with effect from the forenoon of 1st December 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position	Date of Promotion
1.	Shri Manilal Tripathi	Amassador, EOI, Tokyo	01.12.2003

2. On promotion to Grade I of IFS, the Officer relinquished charge of the Post in Grade II with effect from forenoon of 1.12.2003 and assumed charge of the post in Grade I of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 23rd December 2003

No. Q/PA-I/80/2003—The President is pleased to appoint Shri Pavan Kapoor, an officer in Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the service with effect from the forenoon of 2nd December 2003.

2. The appointment of Shri Pavan Kapoor to Grade IV of the IFS w.e.f. 02.12.2003 (F/N) is on the basis of a Proforma Promotion in terms of O.M. No. 8/4/84-Estt(pay-1) dated the 15th July 1985 of Ministry of Personnel & Training.

B.N. REDDY Dy. Secy. (FSP/Cadre)

The 26th December 2003

No. Q/PA-I/81/2003—The President is pleased to appoint Shri Indra Mani Pandey, presently in the Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 2nd December 2003.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Position
1.	Shri Indra Mani Pandey	First Secretary, Permanent Mission of India, Geneva

2. On promotion to Grade IV of IFS, Shri I.M. Pandey relinquished charge of the post in JAG of IFS on the forenoon of 02.12.2003 and assumed charge of the post in Grade IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 4th March 2004

No. Q/PA-I/13/2004—Following completion of tenure of Shri K.K. Framji, presently High Commissioner of India to Ghana (Accra) on 18.02.2004 (A/N), the competent authority is pleased to extend the tenure of Shri K.K. Framji as High Commissioner of India to Ghana (Accra) of the period of 19th February 2004 to end-February 2005.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

No. Q/PA-I/14/2004—The President is pleased to appoint Shri Pankaj Saran presently in the Grade-IV of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-III of the service with effect from the forenoon of 3rd February 2004.

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Shri Pankaj Saran	Grade-IV of IFS	Grade-III of IFS

2. On promotion to Grade III of IFS, Shri Pankaj Saran relinquished charge of the Post in Grade IV of IFS on the forenoon of 03.02.2004 and assumed charge of the post in Grade III of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 9th March 2004

No. Q/PA-I/19/2004—On attaining the age of superannuation, Shri R. Rajagopalan, Ambassador of India to Morocco (Rabat), retired from Grade I of the Indian Foreign Service on the afternoon of February 29, 2004.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

The 10th March 2004

No. Q/PA-I/18/2004—Shri R.M. Abhyankar, presently Secretary in the Ministry of External Affairs has been appointed as the next Ambassador of India to Belgium (Brussels) in succession to Shri Pradeep Kumar Singh. He will also be concurrently accredited as the next Ambassador of India to the Commission of the European Communities and the Council of the European Union with residence at Brussels.

B. N. REDDY, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

New Delhi, the 9th December 2003

No. Q/PA-I/69/2003—On attaining the age of superannuation, Shri O. P. Bajaj, an Officer in Gr. IV of Indian Foreign Service retired from Government Service on the afternoon of 30th November 2003.

BABU PAUL, Administrative Officer (PAI)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 4th February 2004

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS

No. 3 of 2004 (F. No. A. 38012/3/2004-Ad. II)—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri Somnath Pal, Director General, Valuation, Delhi from the Indian Customs & Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 04.02.2004 (F.N.) as per the provisions laid down in FR 56 K read with Rule 48 of CCS (Pension) Rules.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 10th February 2004

No. 04 of 2004 (F. No. A. 38012/6/2004-Ad. II)—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri S. D. Gangurde, Asstt. Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 10.02.2004.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 13th February 2004

No. 05 of 2004 (F. No. A. 38012/2/2004-Ad. II)—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri S. K. Punjabi, Asstt. Commissioner of Central Excise, Pune-II from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 14.03.2004.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 16th February 2004

No. 02 of 2004 (F. No. A. 38012/12/2003-Ad. II)—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri J. M. George, Joint Department Representative, CESTAT from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 31.01.2004.

K. KIPGEN, Under Secy.

The 27th February 2004

No. 06 of 2004 (F. No. A. 38012/4/2004-Ad. II)—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Shri S. Gopalan, Additional Commissioner, Directorate of Vigilance, Chennai from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 19.04.2004.

K. KIPGEN, Under Secy.

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 9th March 2004

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 2 F. No. A. 32012/05/1995-AD. VI (PT.)—In supersession of this Department's Notification No. 16 (F. No. A-32012/5/95-Ad. VI) dated 7.12.1999 regarding grant of Senior Scale to Shri Ajit Kumar Singh ((1090), Deputy Commissioner of Income Tax, Gujarat, the President is pleased to grant Senior Scale (Grade of Deputy Commissioner of Income Tax) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. 01.12.1995.

2. The above orders are subject to the final outcome of SLP filed, if any, and without prejudice to the stand taken by the Government therein.

P.C. BHATT, Under Secy.

(COMPETENT AUTHORITY CELL)

New Delhi, the 16th April 2004

(HEAD QUARTERS ESTABLISHMENT)

No. 3/2004 (F. No. A-13011/3/2003-CA)—The President is pleased to appoint Shri Y. P. Panghar, an officer of Indian

Revenue Service (1973 Batch) and presently posted as Commissioner, Surat, as Competent Authority and Administrator [(Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985], Mumbai with effect from the forenoon of 16th February 2004 and until further orders.

R. C. DHANKAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 12th April 2004

No. A-12011/13/03-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri V. Hariharnath, Accounts Officer of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs to the post of Deputy Controller of Aid Accounts & Audit in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in the same Department with effect from 1.4.2004 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment of Shri V. Hariharnath to the post of Dy. Controller of Aid Accounts & Audit will not confer on him any right for regular appointment or seniority fixation and promotion in the next grade and his ad-hoc appointment can be terminated without giving any notice or assigning any reason.

S. SOUNDERAJAN, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 12th April 2004

No. 13/2/02-DRT—The services of Shri Ram Prakash, Joint Secretary (Nyay) and Joint LR, Govt. of U.P., Lucknow, on deputation to the post of PO, DRT, Lucknow are placed back at the disposal of Allahabad High Court, with immediate effect.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

The 15th April 2004

No. 13/2/01-DRT—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, Sh. Satish Kumar, Presiding Officer, DRT-II, Kolkata is authorized to discharge the functions of Presiding Officer, DRT-I, Kolkata with immediate effect until further orders, without any additional remuneration.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

No. 13/2/02-DRT—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts

due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, Sh. C.K. Lahiri, Presiding Officer, DRT, Allahabad is authorized to discharge the functions of Presiding Officer, DRT, Lucknow with immediate effect until further orders, without any additional remuneration.

M.K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110 001, the 23rd February 2004

No. A-11011/4/2001-Admn. I—In exercise of the powers conferred by Rule 8A of the Company Law Board (Qualifications, Experience & Other Conditions of service of Members) Rules, 1993, the Central Government has appointed Shri S. Balasubramanian, Vice-Chairman, Company Law Board (CLB), to officiate as Chairman, Company Law Board, for a further period of six months beyond 05/12/2003 or until the new National Company Law Tribunal (NCLT) is formed, or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAVINDER DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)  
(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 5th April 2004

No. A-32014/2/2004-Cadre—The President is pleased to appoint the undermentioned 20 officers of CSS as Under Secretaries on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 25th March, 2004. The ad-hoc promotion to the grade of Under Secretary will be subject to following conditions :

- (i) The officers would continue to work in the same Ministry/Department where they are working for the time-being.
- (ii) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (iii) Ad-hoc appointees may be moved to different Ministries/Departments as and when the allocation of specific number of posts to different Ministries/Departments is done apart from the transfer, which may in the meantime be necessitated due to administrative exigencies.

Sl.No.	Name
1	2
	(S/Shri)
1.	A. K. Agnihotri
2.	Dinesh Kumar

1	2
	S/Shri
3.	A. S. Sour
4.	Sukhbir Singh
5.	Amrit Lal
6.	G. K. Gautam
7.	V. K. Sharma
8.	K. K. Majumdar
9.	Smt. Jeewan Sharma
10.	P. C. Tandon
11.	R. K. Prasad
12.	Smt. Sati Mohan Das
13.	P. P. Nagrath
14.	Ram Swarup
15.	Y. M. Pande
16.	N. Sivaramakrishnan
17.	Subrata Das
18.	T. S. Negi
19.	Ms. Anita Tipra
20.	S. K. Deb

P. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 5th April 2004

No. A-32014/2/2004-Cadre—The President is pleased to appoint the undermentioned 43 Assistants of CSS as Section Officer on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 25th March, 2004. The ad-hoc promotion to the grade of Section Officer will be subject to following conditions :

- The above ad-hoc promotion will be made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade.
- Ad-hoc arrangement may continue till regular candidate in Section Officer's Grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants Grade on availability of such regular Section Officers.
- Ad-hoc appointees in the grade of Section Officer may continue to work in the same cadre until further orders. They may, however, be transferred to the other cadres while allocating the revised strength in the grade of Section Officer as a result of cadre

restructuring of CSS or in the administrative exigencies.

Sl.No.	Name	Place of posting/ Remarks
1	2	3
	S/Shri	
1.	Tharvinder Singh	Secretariat
2.	K.L. Miterani	DGS&D
3.	Sunder Singh	DGS&D
4.	Jagdish Kumar Dora	DGS&D
5.	Rajender Singh Kichi	DGS&D
6.	Ram Nath Sawhney	DGS&D
7.	Parveen Kumar	DGS&D
8.	Hori Lal	DGS&D
9.	K. Srinivasu	DGS&D
10.	Prasoon Kumar Jha	DGS&D
11.	Pankaj Gupta	Secretariat
12.	Kishore Bandyopadhyay	DGS&D w.e.f. the forenoon of 5th April, 2004 i.e. the date of repatriation from deputation
13.	A.K. Jain	DGS&D
14.	Krishan Lal	DGS&D
15.	M.S. Rang	DGS&D
16.	Ram Kanwar	DGS&D
17.	H.S. Kem	DGS&D
18.	Uttam Kumar Biswas	Secretariat
19.	Smt. J Subramanian	DGS&D
20.	Jitendra R. Gaikwad	DGS&D
21.	Ek Dass	DGS&D
22.	Satya Vrat	DGS&D
23.	Y.D. Suryavanshi	DGS&D
24.	Smt. Sarita Verma	DGS&D
25.	Smt. S.B. Kohli	DGS&D
26.	Smt. Kum Kum Mathur	DGS&D
27.	Rajinder Prasad	DGS&D w.e.f. the forenoon of 1st April, 2004 i.e. the date of repatriation from deputation
28.	S.K. Jain	DGS&D
29.	Jasbir Singh	DGS&D

1	2	3
	S/Shri	
30.	A.K. Sharma	DGS&D
31.	Smt. Arun Verma	Secretariat
32.	Lakshpati Singh	DGS&D
33.	Smt. K.G. Ponnammma	DGS&D
34.	Mohana Krishnan K.	DGS&D
35.	Om Prakash	DGS&D
36.	Debapriya Barua	DGS&D
37.	Anil Kumar Bindal	DGS&D
38.	R.C. Atri	DGS&D
39.	Navin Chander	DGS&D
40.	Praveen Kumar Gupta	DGS&D
41.	G.V. Sastry	Secretariat
42.	N.K. Gangoly	DGS&D
43.	J.P. Kaushik	DGS&D

S. DAS, Under Secy.

No. A-32014/2/2004-Cadre—The President is pleased to appoint Shri S.D. Viridi, as Deputy Secretary on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th March, 2004. The ad-hoc appointment of Shri Viridi is subject to following conditions :

- Shri S.D. Viridi will continue to work in the same Ministry/Department where he is working for the time-being.
- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- Ad-hoc appointee may be moved to different Ministries/Departments as and when the allocation of specific number of posts to different Ministries/Departments is done apart from the transfer, which may in the meantime be necessitated due to administrative exigencies.

S. DAS, Under Secy.

The 12th April 2004

No. A-32014/2/2004-Cadre—President is pleased to appoint Shri V.P. Gulati, Assistant of CSS as Section Officer on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 8th April, 2004. The ad-hoc promotion to the grade of Section Officer will be subject to following conditions :

- The above ad-hoc promotion will be made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to

continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade.

- Ad-hoc arrangement may continue till regular candidates in Section Officer's Grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants Grade on availability of such regular Section Officers.
- Ad-hoc appointees in the grade of Section Officer may continue to work in the same cadre until further orders. They may, however, be transferred to the other cadres while allocating the revised strength in the grade of Section Officer as a result of cadre restructuring of CSS or in the administrative exigencies.

S. DAS, Under Secy.

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

## (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 7th April 2004

No. A-32011/1/2004-HR.II—In terms of instructions issued by DOPT vide their OM No. 21/6/2004-CS-I dated 16th March, 2004 and OM No. 21/9/2004-CS-I dated 25.3.2004 the President is pleased to appoint the following regular Assistants borne on the combined cadre of D/o Fertilizers & D/o Chemicals & Petrochemicals as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same cadre w.e.f. the date indicated against each :—

S. No.	Name & Designation	Select List Year of Asstt. Grade	Remarks
1.	Shri S.P. Saini*	1988	on dep. to DPEA
2.	Shri Sunil Chauhan*	1989	on dep. to FICC
3.	Shri Sanjay Chatterjee	1989	25.3.2004 (F/N)
4.	Shri R.K. Kodesia	1989	25.3.2004 (F/N)
5.	Shri C.P. Singh	1989	25.3.2004 (F/N)
6.	Shri S.C. Goel	1989	25.3.2004 (F/N)
7.	Shri M.R. Sankla	1989	25.3.2004 (F/N)
8.	Shri K.S. Barwar	1989	25.3.2004 (F/N)
9.	Shri Sita Ram	1989	25.3.2004 (F/N)
10.	Shri S.K. Puri	1989	25.3.2004 (F/N)
11.	Smt. C.K. Gupta	1989	25.3.2004 (F/N)
12.	Shri R.K. Jain*	1989	on long leave/ abroad

\*the effective date in case of S/Shri S.P. Saini, Sunil Chauhan & R.K. Jain will be the date on which they assume charge of the post in this Department.

2. This ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for the regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade.

A. P. SINGH, Dir.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &  
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 5th April 2004

No. A-12011/193-E.I.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Dr. M. M. Verma, Deputy Director in the Directorate of Vanaspathi, Vegetable Oils & Fats as Director in the same organization in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- w.e.f. 14.11.2003 to 13.05.2004 or till a regular incumbent joins, whichever is earlier.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

The 15th April 2004

No. A-32013/1/2004-E.I.—The President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (in-situ) on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 25th March, 2004 in the pay scale of Rs. 12000-16500/-.

1. Smt. Anisa Patheja
2. Shri Jagdeo Lal
3. Shri K. L. Mehta
4. Shri J. P. Agarwal
5. Shri P. Kalyansundaram.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 8th April 2004

No. A.01/04/04-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash Gaba, Asstt. Director, Forest Survey of India, Dehradun as Scientist 'C' in the Department of Science and Technology in the Scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on deputation basis with effect from 7th April, 2004 (FN) for a period of one year or until Shri K. R. S. Krishnan is repatriated from deputation or until further orders whichever is earlier. His appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Department of Personnel & Training's OM No. 2/29/91-Estt.(Pay-II) dated 05.01.1994.

K. S. NAPOLEAN, Dir.

New Delhi-110 016, the 5th April 2004

No. A.12011/02/2004-Admn.I(A)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/11/2004-CS.I dated 25th March, 2004, the President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (in-situ) as Deputy Secretaries (ad-hoc) in the scale of Rs. 12000-375-16,500 in the Central Secretariat Service Cadre of Department of Science and Technology with immediate effect and until further orders :-

1. Sh. S. C. Chawla
2. Sh. B.B. Mehtani

2. The ad-hoc appointment will not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

DEVENDER NATH, Under Secy.

No. A.12011/02/2004(2)-Admn.I(A)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/10/2004-CS.I dated 25th March, 2004, the President is pleased to appoint the following Under Secretaries (in-situ) as Under Secretaries (ad-hoc) in the scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Science and Technology with immediate effect and until further orders :-

1. Sh. B. K. Raichandani, Under Secretary
2. Sh. J.P. Bhatia, Under Secretary
3. Sh. Kamal Prakash, Under Secretary
4. Sh. S. Chakravarthy, Under Secretary
5. Sh. T.K. Gupta, Under Secretary
6. Sh. S.K. Ahuja, Under Secretary
7. Sh. S.P. Katnauria, Under Secretary
8. Sh. R.D. Gupta, Under Secretary
9. Sh. Bakshi Ram, Under Secretary
10. Sh. V.K. Wadhwa, Under Secretary
11. Sh. K.K. Khattar, Under Secretary
12. Sh. T.R. Sharma, Under Secretary
13. Sh. O.P. Rastogi, Under Secretary
14. Sh. Sham Lal, Under Secretary

2. The ad-hoc appointment will not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

DEVENDER NATH, Under Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 8th March 2004

No. 17013/9/2003-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri V. Sasidharan (DOB : 06.05.1949), a State Forest Service officer of Kerala to the Indian Forest Service on the basis of Select List of 1999 with effect from 8th March, 2004 and to allocate him to Kerala cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 16th March 2004

No. 17013/03/2000-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission on 20th February, 2004 has approved the Select List for the year(s) 1998 to 2000 containing the names of following members of State Forest Service Officer of Bihar, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 24th November, 2003 for filling up promotion vacancies in the Bihar cadre of the Indian Forest Service as on 1st January, 1998, 1st January, 1999 & 1st January, 2000:

## Select List of 1998

S. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.*	Vijay Narayan Prasad	12.01.1956
2.	J.P.N. Sinha	22.01.1958
3.	Anup Kumar Sinha	01.07.1958

\*The name of officer at S. No. 1 has been included provisionally subject to clearance in disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

## Select List of 1999

S. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
0.*	Vijay Narayan Prasad	12.01.1956
1.	Babban Prasad Sinha	01.07.1958
2.	Yugal Kishore Singh	28.04.1953
3.	Sudhir Kumar Thakur	01.03.1958

\*The name of the officer at S. No. 0 has been included in the list provisionally subject to clearance in

disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government in addition to the normal size of the Select List in terms of second proviso to Regulation 5(4).

## Select List of 2000

S. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
0.*	Vijay Narayan Prasad	12.01.1956
1.	S.N. Pandey	17.01.1956
2@.	Ravi Shankar Kumar	16.01.1962
3.	Rajbansh Singh	04.11.1957
4.#	Jagannath Sanga	17.07.1950

\* The name of the officer at S. No. 0 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government in addition to the normal size of the Select List in terms of second proviso to Regulation 5(4).

@ The name of the officer at S.No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

# The name of the officer at S.No. 4 has been included in the list provisionally subject to clearance in criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 31st March 2004

No. 17013/08/2001-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with effect from 27th March 2004, the under mentioned two officers of the State Forest Service of Karnataka, to the Indian Forest Service on the basis of the Select List for the year 2003 and to allocate them to the Karnataka Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	K. D. Udupadi	01.06.1958
2.	H. C. Kantharaju	26.07.1958

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 003, the 5th April 2004

No. 19011/6/2004-IFS-I(.)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Ramalinge Gowda, an officer belonging to the 1976 batch of Karnataka cadre of the Indian Forest Service, to the post of Inspector General of Forests in the Ministry of Environment & Forests with effect from the forenoon of 5th April 2004 and until further orders.

M. L. PARASHAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110 011, the 12th April 2004

No. A 12025/358/91-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. G. Leelabai to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October, 1991 until further orders. Dr. G. Leelabai is posted as Medical Officer under Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Tamil Nadu with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/130/94-CHS. I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sushil Kumar to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September 1994 until further orders. Dr. Sushil Kumar is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, (Labour Welfare Organisation, Karma).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/141/94-CHS. I—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Anjana Pankaj to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 12th March 2003 until further orders. Dr. (Smt.) Anjana Pankaj is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Lucknow with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 5th April 2004

No. A. 19012/4/2004-EA—The President is pleased to appoint Ms. Swapna Banerjee, a Junior Time Scale level officer

of Grade-IV of Indian Statistical Service, to the post of Research Officer in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 8,000/—275—13,500/- with effect from the forenoon of 11th December 2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A. 19012/5/2004-EA—The President is pleased to appoint Shri Anjan Kumar Jena, a Junior Time Scale level officer of Grade-IV of Indian Statistical Service, to the post of Deputy Statistical Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 12,000/—375—16,500/- with effect from the forenoon of 29th January 2004.

RAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER  
EDUCATION)

New Delhi, the 1st April 2004

No. F. 15-2009/2002-E.I—The President is pleased to appoint Smt. Kumud Bansal, IAS (MH : 69) as Secretary in the Department of Elementary Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from forenoon of 1st April 2004.

V. S. PANDEY, Jt. Secy.

No. F. 15-2015/2002-E.I—The President is pleased to appoint Shri S. C. Tripathi, IAS (UP : 68) as Secretary in the Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from forenoon of 1st April 2004.

V. S. PANDEY, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 15th April 2004

No. A-39013/1/2000-Admn.-I—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Bramhananda Marathe, Emp-Code-5023, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', NIC Karnataka State Unit, Bangalore, with effect from the afternoon of 23rd June 2000 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)



## (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 16th April 2004

No. 2-1/2002-Admn.—The President is pleased to permit the following Assistants of the cadre of Department of Posts to continue to officiate as Section Officers in the same cadre on ad-hoc basis from 01.01.2004 to 31.03.2004 :—

Sl. No.	Name
---------	------

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | Shri Jagdish Prasad (SC) |
| 2. | Shri S. Acharya          |
| 3. | Shri Prem Nath (SC)      |
| 4. | Shri Ganesh Singh        |

2. The above appointments will not bestow upon the officers any claim for regular appointment and the ad-hoc service rendered will not count for the purpose of seniority etc. in the grade.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

No. 1-1/2004-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. No. 21/10/2004-CS. I dated 25.03.2004, the President is pleased to appoint the following CSS officers holding the post of Assistant Director General (Grade I of CSS) on personal upgradation basis in Department of Posts in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 to the same post on ad-hoc basis in the same cadre with effect from 25.03.2004 :—

Sl. No.	Name
---------	------

- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1. | Shri P. C. Pratihari   |
| 2. | Shri Om Prakash        |
| 3. | Shri S. S. Mehra (SC)  |
| 4. | Shri A. P. Shrivastava |
| 5. | Shri Rajender Kumar    |
| 6. | Shri Bharat Ram        |
| 7. | Shri B. S. Chopra      |

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.

3. The posts of Section Officer/Desk Officer upgraded to the level of Under Secretaries on personal basis and the post of Assistant Director General (GCS) held by Shri Bharat Ram would be demitted by the officers concerned and to the extent the ad-hoc appointments are now notified, a corresponding number of posts of Assistant Director General (Grade I of CSS) would be deemed to have been created in the Department of Posts.

G. P. PILLAI, Asstt. Director General (Admn.)

No. 1-1/2004-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. No. 21/11/2004-CS. I dated 25.03.2004, the President is pleased to appoint Shri A. K. Kaushal, a CSS officer holding the post of Director (Selection Grade of Central Secretariat Service) on personal upgradation basis in Department of Posts in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 to the same post on purely ad-hoc basis in the same cadre with effect from 25.03.2004.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

3. The post of Director (GCS) held by the officer on personal basis would be demitted by him and to the extent the ad-hoc appointment is now notified, a corresponding post of Director (Selection Grade of CSS) would be deemed to have been created in the Department.

G. P. PILLAI, Assistant Director General (Admn.)

 MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 19th April 2004

No. 95/E (GR)/I/32/1—The word provisional indicated against the names of Shri Manoj Kumar and Ms. Rekha Yadav mentioned in Railway Board's notification No. 95/E (GR)/I/32/1 dated 28.04.98 may be deleted.

 MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board

No. 96/E (GR)/I/4/1—The word provisional indicated against the names of S/Shri Saurabh Chaudhari, R. Murugaraj, Narendra A. Patil and Arvind Kumar Rajak mentioned in Railway Board's notification No. 96/E (GR)/I/4/1 dated 08.08.2000 may be deleted.

 MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board

No. 95/E (GR)/I/6/1—The word provisional indicated against the name of Shri Rajesh Kulhari mentioned in Railway Board's notification No. 96/E (GR)/I/6/1 dated 29.09.2000 may be deleted.

 MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board

No. 97/E (GR)/I/4/1—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 97/E (GR)/I/4/1 dated 08.08.2000 may be deleted.

S/Shri

1. Mukul Kumar
2. Raju Bhutra

3. Sharad Srivastava
4. Sumit Gupta
5. Harbinder Singh Bajwa
6. Mahesh Chand Pandey
7. Dharendra Kumar Verma
8. Arvind Kumar Singh
9. I. Jeya Kumar
10. S. Balaji Arun Kumar
11. Rama Kant Singh
12. Rajnish Dev Burman

MAMTAKANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board

No. 97/E (GR)/I/6/1—The word provisional indicated against the names of S/Shri Mukesh Chand Meena, Shalabh Tyagi, G. Ganesamurthi, Raju Lal Meena and Ram Dayal Meena mentioned in Railway Board's notification No. 97/E (GR)/I/6/1 dated 11.10.2001 may be deleted.

MAMTAKANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board

No. 97/E (GR)/I/9/1—The word provisional indicated against the names of S/Shri Rakesh Ranjan, Rakesh Gupta, Sandeep Kumar and R. Srinivas mentioned in Railway Board's notification No. 97/E (GR)/I/9/1 dated 26.06.2001 may be deleted.

MAMTAKANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 07th April 2004

No. A-12025/2/2003-EII (Pt. file)—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Gaur as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 29.03.2004 (AN) and until further orders.

A. P. PADHI, Under Secy.

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th April 2004

No. 11/2004 (F. No. A-38012/1/2004-Admn. I)—Shri S. C. Banerjee, Deputy Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A)

Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st March 2004 on attaining the age of superannuation.

V. C. KAJLA, Under Secy.

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th April 2004

No. 8/2004, F. No. 2/1/2003-Admn.—Consequent upon the resignation tendered by Shri Suresh P. Prabhu from the post of Chairman, Task Force on Inter-Linking of Rivers with effect from the afternoon of 31.03.2004, Shri Nikhilesh Jha, Executive Assistant to former Chairman, Task Force on Inter-Linking of Rivers is allowed winding up period of 15 days with effect from 01.04.2004 to 15.04.2004. He is granted EL for a period of 39 days from 16.04.2004 to 24.05.2004.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 9/2004, F. No. 2/1/2003-Admn.—Consequent upon the resignation tendered by Shri Suresh P. Prabhu from the post of Chairman, Task Force on Inter-Linking of Rivers with effect from the afternoon of 31.03.2004, Shri M. M. Ahuja, Additional Private Secretary to former Chairman, Task Force on Inter-Linking of Rivers is allowed winding up period of 15 days with effect from 01.04.2004 to 15.04.2004. He is granted EL for a period of 39 days from 16.04.2004 to 24.05.2004.

On expiry of the leave, Shri M. M. Ahuja will report to his Cadre, i.e. Ministry of Finance, Department of Expenditure for further posting.

N. K. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th April 2004

No. A-11016/14/2003 CLS-H—Shri S. C. Pandey, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court-I, Mumbai has been given additional charge of CGIT-cum-Labour Court-II, Mumbai vide this Ministry's notification of even no. dated 19.3.2004.

The President is further pleased to authorize Shri S. C. Pandey, Presiding Officer to adjudicate the disputes which are pending before the CGIT-cum-Labour Court-II, Mumbai and may be referred to it in future till further orders.

Y. P. SEHGAL, Under Secy.